



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHUBANESWAR

Sponsored Research and Industrial Consultancy (SRIC)

Administrative Building, IIT Bhubaneswar

Argul- 752050, Khordha, Odisha

Tel: +91-0674-713-4832, E-mail: office.sric@iitbbs.ac.in

Advt. No. : IITBBS/SRIC/RP373/Rect/59/2023-24 Date: 20.02.2024

इस संस्थान के बुनियादी विज्ञान विद्यापीठ में किए गए विशुद्ध रूप से समयबद्ध शोध परियोजना में निम्नलिखित कार्यभार के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश साक्षात्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं/ Applications are invited for a “**Walk-in-interview in a hybrid mode**” (personal presence/online mode) for the following assignment in a purely time-bound research project undertaken in the School of Basic Sciences, IIT Bhubaneswar.

1. अस्थायी पद का नाम/ Name of the : **JRF/SRF – 1 Post**
Temporary Assignment
2. अस्थायी अनुसंधान परियोजना का नाम/ : “Development of Novel Catalytic Approaches for the Synthesis of
Name of the temporary research Functionalized Polycarbo-/heterocycles Involving SO₂/SOX Fixation
Project for Application in Complex Bioactive Natural
Products/Pharmaceutically- Active Molecule/ Agrochemicals
Synthesis.”
3. फंडिंग एजेंसी का नाम/ Name of the : SERB
Funding Agency
4. समेकित पारिश्रमिक/ Consolidated : ₹ 35,000/- + 16% HRA p.m for SRF; ₹ 31,000/-+16% HRA p.m
Emolument for JRF (with GATE); ₹ 25,000/-+16% HRA p.m for JRF
(without GATE); **[Fellowship amount may be revised based
on the latest DST office memorandum subject to approval
from the SERB].**
5. योग्यता और अनुभव/ Qualification & : **JRF-** M.Sc. in chemistry with a minimum of 60% (or cGPA≥6.0).
Experiences Preferably with GATE/NET-LS qualification. B.Sc. (chemistry) with
min. 55% (or cGPA≥5.5) and first class in other degrees with a single
relaxation of 10% at 10 or 12 levels.
SRF- Academic qualification as mentioned above for JRF along with
2 years post M.Sc. research experience and preferably 01 research
publication.
6. आयु सीमा/Age Limit : The age of the applicant should be less than 30 years (for JRF) and
32 years (for SRF) as on last date of submission of application and
candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD will be given age
relaxation as per Government rules.
7. परियोजना की अवधि/ : 3 Year (14.02.2024 to 13.02.2027)
Duration of the project
8. नियुक्ति की अवधि/ Duration : One year from the date of joining (extendable after one year
Appointment subject to satisfactory performance and fund availability).
9. साक्षात्कार की तारीख और समय / Date : **05th March 2024 from 10:00 AM onwards.**
and Time of Interview
10. साक्षात्कार का स्थान /Venue of : **School of Basic Sciences, Room No. 004, IIT Bhubaneswar, Argul-
Interview 752050, Khordha, Odisha, India followed by online interview @
<https://meet.google.com/gdu-pfru-qbd>**

Interested candidates with the required qualifications who wish to attend this walk-in interview may fill out the forms at <https://forms.gle/fLXsy8DerV3yrRqy6> by 02nd March 2024 till 6:00 PM. For any clarifications please free to write to the PI Dr. Tabrez Khan at tabrez@iitbbs.ac.in. A detailed interview schedule will be shared by the PI by 04th March 2024.

Sd-
उप कुलसचिव (श्रीक)
Dy. Registrar (SRIC)